

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती मनाई

दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (डीडीयू- केके), जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने प्रसिद्ध सुधारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर "पंडित दीनदयाल उपाध्याय: दर्शन और एकात्म मानववाद" विषय पर 28 सितंबर, 2022 को एक व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान का उद्देश्य न केवल उन्हें श्रद्धांजलि देना था बल्कि उनकी विचारधाराओं पर भी विचार करना था।

अतिथि वक्ता प्रो. गिरीश चंद्र पंत, संस्कृत विभाग, जामिया ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई और इस विषय पर गहराई से बात की जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा के एक साथ और एकीकृत कार्यक्रम की वकालत करता है।

कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की माननीय निदेशक प्रो. मरियम सरदार के संबोधन से हुई। जिन्होंने बड़ी संख्या में व्याख्यान में भाग लेने वाले सभी मेहमानों, वक्ताओं और छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने अतिथि वक्ता का अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र को निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर का धन्यवाद दिया। उन्होंने रजिस्ट्रार, जामिया, प्रो. नाजिम हुसैन जाफरी का भी आभार व्यक्त किया।

सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज के माननीय निदेशक प्रो सैयद अख्तर हुसैन ने सत्र शुरू करने के लिए अतिथि वक्ता का विस्तृत परिचय दिया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कौशल भारत योजना के तहत वर्ष 2015 में यूजीसी द्वारा जामिया में दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की स्थापना हुई थी जामिया का यह केंद्र मेडिकल लैब साइंसेज और मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सफलतापूर्वक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहा है जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को एक कुशल कार्यबल प्रदान करता है।

कार्यक्रम के दौरान विभाग के गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित संकाय सदस्य डॉ. एम मोनिस खान, डॉ शहनाज परवीन, डॉ मोहम्मद मिस्बाह, डॉ साद मुस्तफा और डॉ अमीना महमूद उपस्थित थे। इसका समापन छात्र प्रतिनिधि के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिलिया इस्लामिया